

Birla Cable Limited

Regd. Office & Works: Udyog Vihar, P.O.Chorhata, ,Rewa-486 006 Madhya Pradesh, India Telephone: +91 7662 400580, Fax: +91 7662 400680 Email: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com PAN No. AABCB1380L CIN: L31300MP1992PLC00719 GSTIN: 23AABCB1380L1ZW

BCL/CS/2023-24/Reg.47

4 MAY 2023

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J.Towers, Dalal Street,

Fort,

MUMBAI-400 001

The Manager, Listing Department, The National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: 500060 Company's Scrip Code: BIRLACABLE

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement – Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2023

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2023 published in Newspapers viz. – Financial Express (in English) and Dainik Jagran (in Hindi) on 4th May, 2023.

We request you to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully, for Birla Cable Ltd.

(R. Sridharan) Manager & CEO

Encl: As above.



AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED CIN: L28998DL1983PLC017150

Reg. office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext. East Delhi- 110092

Website: www.akashdeepmetal.in; Email: info.akashdeep14@gmail.com CORRIGENDUM TO THE POSTAL BALLOT NOTICE

issued by Akashdeep Metal Industries Limited, this Corrigendum is being issued to give notice regarding amended details as mentioned herein: "Remote e-voting end day i.e., "Sunday June 03rd, 2023" shall be read as "Saturday

June 03rd, 2023" at several places in the Postal Ballot Notice." All other contents/information mentioned in the Postal Ballot Notice shall remain unchanged. The Postal Ballot Notice should be read in continuation of and in conjunction

For Akashdeep Metal Industries Limited

Isha Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai - 400021

Offers are invited from reputed Consultant for providing consultancy for

selection of vendor and implementation of Learning Management System in the Bank. For details, please see Procurement News at Bank's website https://bank.sbi/.

Deputy General Manager (L&D) Place: Mumbai (Strategic Training Unit) Date: 04.05.2023

NOTICE

RESPECT OF BELOW MENTIONED EQUITY SHARES OF THE M/S. CERA SANITARYWARE LIMITED ('COMPANY') HAVE BEEN LOST / MISPLACED / STOLEN AND THE HOLDER OF THE SAID SHARES, MR. SUBODH BASAK HAS APPLIED TO THE COMPANY FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES IN LIEU OF THE ORIGINAL SHARE CERTIFICATE NOS. 6229 & 6230 BELONGING TO FOLIO NO. CSL00003748. ANY PERSON HAVING CLAIMS OBJECTIONS IN THE SAID SHARES, SHOULD COMMUNICATE TO THE COMPANY AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE, FAILING WHICH THE COMPANY SHALL PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERTIFICATES.

Pursuant to Regulation 29 read with

Company's website at www.glittek.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites www.bseindia.com

Place: Hoskote Date: 03.05.2023

No.

Company Secretary

Date : 3rd May, 2023

360 ONE PRIME LIMITED (Formerly known as IIFL Wealth Prime Limited)

CIN: U65990MH1994PLC080646

Regd. Office: 360 ONE Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India. | Tel: (91-22) 4876 5600; Fax: (91-22) 4646 4706

Email id: nbfc-compliance@iiflw.com | www.iiflwealthprime.com

360 픎

wealth

(Rs. in crore)

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

S/N.	Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
1_	Total Income from Operations	673.66	754.58
1	Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	292.51	362.37
2			
3	Net Profit for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	292.51	362.37
4	Net Profit for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	234.52	282.80
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	234.37	282.79
6	Paid up Equity Share Capital	305.49	305.49
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Capital redemption reserve)	1,091.19	966.81
8	Securities Premium Account	478.52	478.52
9	Net worth	1,396.68	1,272.30
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	6,070.88	5,296.51
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-
12	Debt Equity Ratio	4.35	4.16
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic:	7.68	9.26
	2. Diluted:	7.68	9.26
14	Capital Redemption Reserve	0.23	0.23
15	Debenture Redemption Reserve	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A	N.A
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A	N.A

Net worth is equal to paid up equity share capital plus reserves less capital redemption reserve. Debt Equity Ratio is (Debt securities+ Borrowings+ Subordinated Liabilities)/Equity.

These financial results for the year ended March 31, 2023, have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 02, 2023. The Statutory Auditors have conducted audit and have issued unmodified opinion on the financial results for the year ended March 31, 2023. These financial results have been extracted from These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting

Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. These financial results have also been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended from time to time. For the other items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the

pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com and on the website of the company i.e. www.iiflwealthprime.com. The above is an extract of the detailed format of annual audited financial results filed with the BSE Limited ("Stock Exchanges") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of audited financial results

are available on the websites of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and the website of the company i.e. www.iiflwealthprime.com. The Board of Directors in their meeting held on May 02, 2023 have recommended a final dividend of Rs. 3.70 per equity share for the financial year 2022-23 amounting to Rs. 113.03 crore, subject to approval of the shareholders in the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

With a view to consolidate the distribution businesses of 360 WAM Limited (formerly known as IIFL Wealth Management Limited) under a single wholly owned subsidiary, it was proposed to demerge the distribution business from 360 One Prime Limited (formerly known as IIFL Wealth Prime Limited ("IWPL")) to IIFL Wealth Distribution Services Limited ("IWDSL"). In this regard, the Boards of Directors of IIFL Wealth Capital Market Limited (IWCML) and IWPL and IWDSL have approved the the Composite Scheme of Arrangement under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Scheme"), where in, it was proposed to amalgamate IWCML with IWPL and transfer the distribution business from IWPL and IWCML to IWDSL. The Scheme has been approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal vide its order dated February 28, 2023 and effective dated March 14, 2023. The appointed date for the Scheme is April 1, 2021 and accordingly the Company has given effect of necessary accounting adjustments basis the scheme and has restated all its previous year

Consolidated

(Rs.in Lakhs)

31-03-2023 31-12-2022 31-03-2022 31-03-2023 31.03.2022 31-03-2023 31-12-2022 31-03-2022 31-03-2023 31.03.2022

Year Ended

7 Previous year figures have been regrouped/reclassified to make them comparable with those of current year.

For **360 ONE Prime Limited** (Formerly known as IIFL Wealth Prime Limited)

Standalone

Quarter ended

Himanshu Jain

Whole Time Director and CEO (DIN: 02052409)

(Rs.in Lakhs)

Year Ended

Focus Lighting and Fixtures Limited

Mr Amit Sheth Managing Director

DIN: 01468052

(₹ in lakhs)

Date: May 02, 2023

Particulars

figures.

FOCUS LIGHTING AND FIXTURES LIMITED

CIN: L31500MH2005PLC155278

Regd. Office: 1007-1010, Corporate Avenue Wing A, Sonawala Road, Near Udyog Bhawan, Goregaon (East), Mumbai - 400063, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 2686 5671-6; E-mail: info@pluslighttech.com; Website: www.pluslighttech.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Quarter ended

- 3		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4,110.84	6,130.55	3,554.79	16,996.12	10,660.19	4,031.95	5,860.03	3,422.01	16,286.78	10,249.05
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	646.18	1,380.11	409.79	2,922.54	594.54	569.42	1,360.11	332.50	2,896.49	488.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	646.18	1,380.11	409.80	2,922.54	594.54	569.42	1,360.11	332.50	2,896.49	488.32
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	515.98	1,019.26	351.16	2,269.25	455.66	439.22	999.25	273.87	2,243.20	349.44
5	Profit / (Loss) from discontinuing operations		7								
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	541.87	1,135.48	286.15	2,360.47	409.89	442.92	1,105.92	206.72	2,281.41	299.19
7	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,305.01	1,013.58	1,013.58	1,305.01	1,013.58	1,305.01	1,013.58	1,013.58	1,305.01	1,013.58
8	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				7,689.57	2,510.89				7,796.37	2,653.98
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (not annualized) (In Rupees)				11175-201					3	
(i)	Basic	0.15	11,20	2.82	18.09	4.04	3.39	10.81	2.04	17.48	2.95
	Diluted	0.15	11.20	2.82	18.09	4.04	3.39	10.81	2.04	17.48	2.95
(0)	2000				7.0000				7702770	11.77.00.000	100000
1)	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2	er, which are 2015. These	31, 2023 prepared	3 and the audit d in accordance	ed standalone with the Ind	condensed in AS notified un	terim financial der the Compa	andalone finance statements up anies (Indian Ac d by the Board	to the end of to	he third quarte dards) Rules,	er, which are 2015. These
	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, a results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of to 10 each at the offer price of Rs 63 per share in terms of the Company's Employee Stock Option Scheme of	er, which are 2015. These ld on May 3, the company of 2019. The	31, 202; prepared results h 2023. Ti 2) During th of 10 es	3 and the audit d in accordance have been revie he statutory au he Quarter ende ach at the offer	ed standalone e with the Ind wed by the Au ditors have ex ed 31.03.2023 price of Rs 63	condensed in AS notified un udit Committee pressed an ur the employees per share in	terim financial der the Compa and approved modified audi have subscrib terms of the C	statements up anies (Indian Ad I by the Board I opinion on the ed to 55,500 Fu ompany's Empl	to the end of the counting Stan of Directors at ese results. Illy Paid up Equoyee Stock Open	he third quark dards) Rules, its meeting he altry Sahres of ation Scheme	er, which are 2015. These Id on May 3, the company of 2019. The
1)	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2 results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of the statutory auditors.	er, which are 2015. These ld on May 3. the company of 2019. The and paid up	31, 202; prepared results h 2023. Ti 2) During the of 10 eacompany	3 and the audit d in accordance have been revie the statutory au the Quarter ende ach at the offer by had alloted 9	ed standalone e with the Ind wed by the Ar ditors have ex ed 31.03.2023 price of Fis 63 7,500 Equity :	condensed in AS notified un udit Committee pressed an ur the employees per share in shares to FLFL	terim financial der the Compa and approved imodified audi have subscrib terms of the C . Employee W	statements up anies (Indian Ad by the Board t opinion on the ed to 55,500 Fu	to the end of a counting Stan of Directors at ese results. Ily Paid up Equ oyee Stock Op 17.06.2022. T	he third quarts dards) Rules, its meeting he aitry Sahres of ation Scheme he subscribed	er, which are 2015. These Id on May 3, the company of 2019. The and paid up
1)	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 3 results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of to 10 each at the offer price of Rs 63 per share in terms of the Company's Employee Stock Option Scheme of company had alloted 97,500 Equity shares to FLFL Employee Welfare Trust on 17.06.2022. The subscribed	ar, which are 2015. These Id on May 3. the company of 2019. The and paid up Trust.	31, 202: preparer results h 2023. The Control of 10 ear capital of 3) The Control of 10 cts of 1	3 and the audit d in accordance have been revie he statutory au he Quarter ende ach at the offer y had alloted 9 of the company empany had issi	ed standalone e with the Ind. wed by the Auditors have ex ed 31.03.2023 price of Rs 63 7,500 Equity : Rs 1305.01 La ued and allote e said shares	condensed in AS notified unudit Committee pressed an unuthe employees a per share in shares to FLFL akhs is net of the d 28,58,815 si	terim financial der the Compa and approved imodified audi have subscrib terms of the C Employee W he 42,000 ESC hare warrants	statements up anies (Indian Ad i by the Board of 1 opinion on the ed to 55,500 Fu ompany's Empl elfare Trust on	to the end of a accounting Stan of Directors at ase results. Illy Paid up Eq oyee Stock Op 17.06,2022. T with FLFL Emp is 110 per wan	he third quarts dards) Rules, its meeting he aitry Sahres of otion Scheme he subscribed sloyee Wettare ant on prefrer	er, which are 2015. These Id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. tial basis on
1)	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 3 results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of to 10 each at the offer price of Rs 63 per share in terms of the Company's Employee Stock Option Scheme of company had alloted 97,500 Equity shares to FLFL Employee Welfare Trust on 17.06.2022. The subscribed capital of the company Rs 1306.01 Lakhs is net of the 42,000 ESOP shares held with FLFL Employee Welfare. The Company had issued and alloted 28,58,815 share warrants at a price of Rs 110 per warrant on prefrential October, 2022. The said shares were subsequently converted into 28,58,815 Equity Shares of FaceValue of	ar, which are 2015. These id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. basis on 7th f Rs 10 each	31, 202: preparer results h 2023. Ti 2) During the of 10 eacompany capital of 3) The Control of the each on	3 and the audit d in accordance have been revie he statutory au he Quarter ende ach at the offer y had alloted 9 of the company mpany had issi ober, 2022. The 1 12th January	ed standalone e with the Ind. ewed by the Ar ditors have ex ed 31.03.2023 price of Rs 63 7,500 Equity s Rs 1305.01 La ued and allote e said shares 2023	condensed in AS notified un udit Committee pressed an ur the employees per share in shares to FLFL ekhs is net of the d 28,58,815 si were subsequ	terim financial der the Compa and approved imodified audi have subscrib terms of the C Employee W he 42,000 ESC hare warrants sently converte	statements up anies (Indian Ad d by the Board of t opinion on the ed to 55,500 Fu ompany's Empl elfare Trust on OP shares held at a price of Re	to the end of a counting Stan of Directors at ese results. Illy Paid up Eq oyee Stock Or 17.06.2022. T with FLFL Emp is 110 per wan 15 Equity Sha	he third quarts dards) Rules, its meeting he after Sahres of ation Scheme he subscribed aloyee Welfare ant on prefrer es of FaceVa	or, which are 2015. These id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. Itial basis on ue of Rs 10
1)	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 3 results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of to 10 each at the offer price of Rs 63 per share in terms of the Company's Employee Stock Option Scheme of company had alloted 97,500 Equity shares to FLFL Employee Welfare Trust on 17.06.2022. The subscribed capital of the company Rs 1305.01 Lakhs is net of the 42,000 ESOP shares held with FLFL Employee Welfare. The Company had issued and alloted 28,58,815 share warrants at a price of Rs 110 per warrant on prefrential October, 2022. The said shares were subsequently converted into 28,58,815 Equity Shares of FaceValue of on 12th January 2023.	ar, which are 2015. These Id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. I basis on 7th FRs 10 each	31, 202: preparer results h 2023. The Control of 10 case company capital of 3) The Control of 10 case of 10 ca	3 and the audit d in accordance he statutory au he Quarter ende ach at the offer y had alloted 9 of the company impany had issue ober, 2022. The 12th January atement is as p	ed standalone e with the Ind. ewed by the Au ditors have ex ed 31.03.2023 price of Rs 63 7,500 Equity s Rs 1305.01 La ued and allote e said shares 2023 er Regulation	condensed in AS notified unudit Committee pressed an unuthe employees a per share in shares to FLFL akhs is net of the d 28,58,815 si were subsequences	terim financial der the Compa and approved imodified audi have subscrib terms of the C Employee W ne 42,000 ESC hare warrants sently converte	statements up anies (Indian Ad I by the Board I opinion on the ed to 55,500 Fu ompany's Empl elfare Trust on OP shares held at a price of Re ed into 28,58,81	to the end of a counting Stan of Directors at ese results. Illy Paid up Eq oyee Stock Op 17.06,2022. T with FLFL Emp is 110 per warn 15 Equity Sha	he third quarts dards) Rules, its meeting he after Sahres of ation Scheme he subscribed aloyee Welfare ant on prefrer es of FaceVa	or, which are 2015. These id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. Itial basis on ue of Rs 10
1) 2) 3] 4]	Notes:- These results have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements for the year e 31, 2023 and the audited standalone condensed interim financial statements upto the end of the third quarte prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 3 results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting hel 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. During the Quarter ended 31.03.2023 the employees have subscribed to 55,500 Fully Paid up Equitry Sahres of to 10 each at the offer price of Rs 63 per share in terms of the Company's Employee Stock Option Scheme of company had alloted 97,500 Equity shares to FLFL Employee Welfare Trust on 17.06.2022. The subscribed capital of the company Rs 1305.01 Lakhs is net of the 42,000 ESOP shares held with FLFL Employee Welfare The Company had issued and alloted 28,58,815 share warrants at a price of Rs 110 per warrant on prefrential October, 2022. The said shares were subsequently converted into 28,58,815 Equity Shares of FaceValue of on 12th January 2023 This Statement is as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regu	ar, which are 2015. These lid on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. I basis on 7th FRs 10 each slations, 2015. March 2023.	31, 202: preparer results h 2023. The Control of 10 case company capital of 3) The Control of 10 case of 10 ca	3 and the audit d in accordance he statutory au he Quarter ende ach at the offer y had alloted 9 of the company impany had issue ober, 2022. The 12th January atement is as p	ed standalone e with the Ind. ewed by the Au ditors have ex ed 31.03.2023 price of Rs 63 7,500 Equity s Rs 1305.01 La ued and allote e said shares 2023 er Regulation	condensed in AS notified unudit Committee pressed an unuthe employees a per share in shares to FLFL akhs is net of the d 28,58,815 si were subsequences	terim financial der the Compa and approved imodified audi have subscrib terms of the C Employee W ne 42,000 ESC hare warrants sently converte	statements up anies (Indian Ad d by the Board of opinion on the ed to 55,500 Fu ompany's Empl eafare Trust on OP shares held at a price of Re ed into 28,58,81 gations and Dis-	to the end of a counting Stan of Directors at ese results. Illy Paid up Eq oyee Stock Op 17.06,2022. T with FLFL Emp is 110 per warn 15 Equity Sha	he third quarts dards) Rules, its meeting he after Sahres of ation Scheme he subscribed aloyee Welfare ant on prefrer es of FaceVa	or, which are 2015. These id on May 3, the company of 2019. The and paid up Trust. Itial basis on ue of Rs 10

BIRLA CABLE LIMITED

Regd. Office: Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 (M.P.) CIN: L31300MP1992PLC007190

Telephone No: 07662-400580, Fax No: 07662-400680 E-mail: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

				Standalone				Consolidated				
			Quarter Ended		Year Ended		Quarte	Quarter Ended Yes				
SI. No.	Particulars	24 02 2022	24 40 2022	24 02 2022	24.02.2022	24.02.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.202			
(Koarres)		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	90	(Refer Note N	lo.1)			
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	24530.33	19970.03	16218.87	79219.75	53544.73	24530.33	19970.03	79219.75			
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1734.60	1117.24	1421.88	4451.43	2923.52	1712.36	1106.87	4396.76			
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1734.60	1117.24	1421.88	4451.43	2923.52	1712.36	1106.87	4396.76			
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1295.56	829.94	1058.27	3348.66	2173.71	1273.32	819.57	3293.99			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1607.54	1417.81	742.60	4794.68	2122.75	1581.99	1408.81	4737.99			
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- per share)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		dia -		19998.29	15653.61			19941.60			
8	Basic & Diluted Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	4.32	2.77	3,53	11.16	7.25	4.24	2.73	10.98			

Notes: (1) The Audited Consolidated Financial Results of the Company has been made after incorporating the Audited Financial Result of Birla Cable Infrasolutions DMCC, a wholly owned subsidiary of the Company, in which the Company has made investment in Equity Shares of ₹ 139.84 lakhs during the year ended 31 March, 2023.

- (2) The Board of Directors has recommended a dividend at the rate of ₹2.50 (25%) per fully paid up equity share of face value of ₹10/- each for the year ended 31st March, 2023. The payment of dividend is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Company.
- (3) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31" March. 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results for the quarter and year ended 31" March, 2023 are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.birlacable.com.

for Birla Cable Limited (Harsh V. Lodha) Chairman DIN: 00394094

This is to inform you that with respect to the Postal Ballot Notice dated April 28th, 2023.

with this corrigendum.

This corrigendum has been sent to all the shareholders of the Company. The corrigendum is also placed on the website of the Company www.akashdeepmetal.in.

Date:03.05.2023 Place: Delhi

Baroda



Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.barodabnpparibasmf.in · Toll Free: 18002670189

NOTICE NO. 25/2023

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Scheme of Baroda

Notice is hereby given to all the unitholders of Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund ("Scheme"), that following shall be the rate of distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of respective plan under the Scheme with Monday, May 08, 2023^{as the Record Date:}

Distribution NAV per unit as on Name of the Scheme Name of Plans/Options May 02, 2023 per unit#* (face value per unit of ₹ 10/-) (In ₹) Baroda BNP Paribas | Regular Plan - Monthly IDCW Option 0.05 10.2351

Arbitrage Fund Direct Plan - Monthly IDCW Option 10.5317 0.05

for the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

*Net distribution amount will be paid to the unit holders under respective categories after deducting applicable taxes, if any.

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date

Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Formerly BNP Paribas Asset Management India Private Limited) (Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Authorised Signatory

BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



ANUPAM RASAYAN INDIA LTD.

CIN - L24231GJ2003PLC042988

Regd. office: Anupam Rasayan India Ltd., 8110, Sachin G.I.D.C. Estate, Sachin, Surat - 394230 Gujarat, India. Tel: +91 261 2398991-95, Website: www.anupamrasayan.com Email: investors@anupamrasayan.com

1. Extract from the Audited Consolidated Financial Results of Anupam Rasayan India Ltd. for the quarter and year ended March 31, 2023 (Rs. in millions except per share data)

		Quarter Ended	Year Ended			
Particulars	31-Mar-23 Audited	31-Dec-22 Unaudited	31-Mar-22 Audited	31-Mar-23 Audited	31-Mar-22 Audited	
Total Revenue	5,042.25	3,887.87	3,168.55	16,104.74	10,811.07	
Net Profit / (Loss) (before Tax & Exceptional items)	1,027.70	753.32	677.22	3,061.87	2,212.03	
Net Profit / (Loss) before Tax (after Exceptional items)	1,027.70	753.54	684.30	3,076.62	2,218.56	
Net Profit / (Loss) (after Tax & Exceptional items)	726.39	544.31	461.02	2,168.46	1,521.78	
Total Comprehensive Income	725.66	541.69	463.51	2,151.60	1,513.41	
Share Capital	1,074.65	1,072.07	1,002.47	1,074.65	1,002.47	
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet				22,651.23	16,266.03	
Earnings Per Share Basic & Diluted (Face Value of Rs. 5/- each)					4600	
(-) Basic EPS (Rs.)	7.00	5.31	4.61	20.91	15.22	
(-) Diluted EPS (Rs.)	6.99	5.30	4.60	20.86	15.18	

2. Extract from the Audited Standalone Financial Results of Anupam Rasayan India Ltd. for the quarter and year ended March 31, 2023

Date : May 03, 2023

Place: Mumbai

5 E E E		Quarter Ended	Year Ended		
Particulars	31-Mar-23 Audited	31-Dec-22 Unaudited	31-Mar-22 Audited	31-Mar-23 Audited	31-Mar-22 Audited
Total Revenue	3,893.12	2,911.51	3,168.55	12,863.09	10,811.07
Net Profit / (Loss) (before Tax & Exceptional items)	736.79	541.97	673.16	2,422.35	2,201.81
Net Profit / (Loss) before Tax (after Exceptional items)	736.79	541.97	673.16	2,422.35	2,201.81
Net Profit / (Loss) (after Tax & Exceptional items)	512.80	386.48	450.88	1,685.29	1,507.76
Total Comprehensive Income	511.90	383.86	453.37	1,669.05	1,499.39
Share Capital	1,074.65	1,072.07	1,002.47	1,074.65	1,002.47
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-			22,519.80	16,244.07
Earnings Per Share Basic & Diluted (Face Value of Rs. 5/- each)					
(-) Basic EPS (Rs.)	4.94	3.77	4.51	16.25	15.08
(-) Diluted EPS (Rs.)	4.93	3.76	4.50	16.21	15.04

[1] The above audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 have been prepared by the Company in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and were reviewed by the Audit Committee of the Board and thereafter were approved and taken on

record by the Board of Directors in their meeting held on May 3, 2023.

financialexp.epapr.in

[2] Based on the management approach as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker (CODM) evaluates the company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators of business segment/s in which the company operates. The Company is primarily engaged in the business of custom synthesis and manufacturing of specialty chemicals which the management and CODM recognise as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.

[3] A fire broke out at one of the manufacturing plants of the Company located at Sachin, Gujarat in September, 2022. The Company based on the assessment of the physical damage to its assets and financial impact owing to the fire lodged

- claims with the insurance company amounting to Rs. 168.11 million on replacement cost basis. Based on an impairment test and on the primary assessment of inventory and Property, plant and equipment damaged due to fire at book value amounting to Rs. 58.48 million and equivalent amount is shown as recoverable from the insurance Company. The final impact shall be given effect based on the final assessment done in the future. [4] Out of total proceeds of Qualified Institutional Placement (QIP) INR 4,999.67 millions, INR 777.90 million has been utilised for Capex projects, general corporate purpose and INR 313.00 millions for Issue related expenses upto March
- with Banks. [5] The Board of Directors have declared an interim dividend of INR 1.5/- @15% per Equity Share of face value of

31, 2023 as per object of QIP as per Placement Documents filed with Securities and Exchange Board of India (SEBI) on

October 03, 2022 and balance proceeds of INR 3,908.77 millions are lying with Bank Accounts and Fixed Deposits

[6] The figures of the previous period have been re-grouped / rearranged and / or recasted wherever considered necessary. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and audited year to date figures up to the third quarter of the current/previous financial year.

Anand Desai Place: Surat Date: May 3, 2023 Managing Director

Adfactors 51

For ANUPAM RASAYAN INDIA LIMITED

OSBI Strategic Training Unit, 16th Floor, Corporate Centre,

Request for Expression of Interest for Shortlisting of Consultants for Procurement of Learning Management System

NOTICE HEREBY GIVEN THAT CERTIFICATES IN



Regulation 47 of the SEBI (LODR Regulation, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held or the Wednesday 24th day of May, 2023 a 11.30 A.M. inter alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2023. The said Notice may be accessed on the

For Glittek Granites Ltd

Date: 2" May, 2023

Kolkata

नई नियुक्ति के रोस्टर में दावा आपत्ति की सूचना जारी

विवि ने 15 दिन का दिया समय, फिर जारी होगा गैर-शैक्षणिक पदों को भरने का विज्ञापन

जागरण, रीवा

विश्वविद्यालय में नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। करीब 32 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में यह

नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय ने आरक्षण रोस्टर तैयार कर लिया है, जिस पर विश्वविद्यालय ने दावा-आपत्ति मांगी है। इस बाबत विश्वविद्यालय ने सुचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार रोस्टर में दावा-आपत्ति करने किसी भी व्यक्ति या संस्था को 15 दिन का समय दिया गया है। नियत अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विश्वविद्यालय विचार नहीं करेगा। बहरहाल, प्राप्त आपित्तयों का निराकरण करने के बाद विश्वविद्यालय माह के आखिरी तक विज्ञापन सूचना जारी कर सकता है।



गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में 62 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ होनी है। यदि समय पर यह नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है तो विश्वविद्यालय को एक बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इसके पहले विश्वविद्यालय में आखिरी बार वर्ष 1989 में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में बैकलॉग के पदों पर भर्ती हुई। इस अवधि में सामान्य पदों को न भरने पर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की बेहद कमी हो गई, जिसके चलते छात्रों के काम आये दिन विश्वविद्यालय में प्रभावित होते आ रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की

સમી પર્દો પર हોગી સીધી મતી

बताते हैं कि विश्वविद्यालय ने 32 वर्ष पूर्व जब नियमित नियुक्ति की थी, उसके बाद 1990 में मप्र शासन ने विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की शक्तियां कम कर दी। लिहाजा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं कर पाया। अब मप्र शासन की अनुमति मिलने पर विश्वविद्यालय ने अब सीधी भर्ती करने संबंधी कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है।

शैक्षणिक अर्हता व मापदण्ड हुए तय

जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक वर्ग-1, 2, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक ग्रंथपाल, प्रोग्रामर, पीटीआई , कैटलागर , सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, भृत्य, स्वीपर आदि पदों पर भर्ती होनी है। सबसे ज्यादा १९ निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। संबंधित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता समेत अन्य मापदण्ड तय कर लिये गए हैं।

कमी से निपटने विश्वविद्यालय वैकल्पिक रास्ता निकालता रहा है परंतु इससे विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में कोई बड़ा सुधार नहीं आया।

बीएसएफ जवान के पुत्र योगेश सेना में बने लेफ्टिनेंट

आफिसर टेनिंग एकेडमी के प्रशिक्षण में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, मिले २ मेडल

रीवा। शहर के छत्रपति नगर निवासी योगेश चतुर्वेदी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं। एक वर्ष पहले योगेश का चयन भारतीय सेना में अफसर पद के लिए हुआ था। इसके उपरांत योगेश को एक वर्ष तक ऑफीसर ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण मिला। इस दौरान सारे टेस्ट योगेश ने पास करके अपने प्रशिक्षण को सफल बनाया और पूरी एकेडमी में बेहतर स्थान प्राप्त किया। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए योगेश को 2 मेडल से सम्मानित किया गया। इस ट्रेनिंग के बाद योगेश की पासिंग आउट परेड विगत 29 अप्रैल को हुई, जिसमें उन्हें लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा गया। तदुपरांत उन्हें भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट का हिस्सा बनाया गया है।



योगेश के पिता राजेंद्र चतुर्वेदी भी बीएसएफ में एएसआई पद पर कार्यरत् हैं। योगेश की एक बहन क्रांति चतुर्वेदी हैं। योगेश की माता सुनीता चतुर्वेदी गृहिणी हैं, जिन्होंने पहले अपने पति की सेना में सेवा के दौरान तपस्या की और अब अपने सुपुत्र को भारत माँ की सेवा में भेज दिया है। योगेश की प्राथमिक

शिक्षा रीवा के ही केंद्रीय विद्यालय में हुई। फिर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से उन्होंने एमएससी किया। एनसीसी कैडेट् रहते हुए योगेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी इस सफलता पर सभी परिँजनों व इष्टमित्रों ने

शूटिंग में जिले के खिलाड़ियों का चयन ७ को त्रीवा। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल द्वारा रायफल, को पातः ९:०० बजे से दोपहर। :०० तक शहडोल जिले में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किया जा रहा है। जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमिरिया, अनुपपुर, जबलपुर एवं कटनी के खिलाड़ी सम्मिलित होंगें। प्रतिभा चयन कार्यक्रम में बालक, बालिकाओं की उम्र 13 वर्ष से 16 वर्ष के मध्य तथा शूटिंग के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों 13 से 18 वर्ष आयु वर्ग के भाग ले सकते है। संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल से भेजी गई प्रशिक्षकों को टीम प्रतियोगिता स्थल पर शूटिंग खेल का प्रदर्शन वीडियों और फोटो दिखाकर किया जायेगा, साथ ही बालक, बालिकाओं की ऊँचाई व वजन भी लिया जावेगा। संभागीय खेल और युवा कल्याण

अधिकारी एम.के.धौलपुरी द्वारा बताया गया है कि जिले के इच्छुक खिलाड़ी चयन ट्रॉयल हेतु ७ मई को प्रात: 09:00 बजे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल शहडोल में उपस्थित हो कर भाग ले सकते है।

भारत की प्रगति विषय पर हुई भाषण प्रतियोगिता

टीआरएस महाविद्यालय में हुआ आयोजन

महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन स्वाधीनता के महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा तथा 2020 प्रस्तावित युवा नीति के

तहत प्रत्येक माह होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में यह आयोजन हुआ। इस भाषण प्रतियोगिता का विषय भारत 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत की प्रगति रहा। भाषण प्रतियोगिता के संयोजक डॉ.अमित शुक्ला ने संचालन करते हुए स्वाधीनता के अमृत



पर वर्ष भर चलने वाले आयोजन के महत्वपूर्ण बिदुओं को रेखांकित किया। आयोजन के मुख्य संयोजक डॉ. अखिलेश शुक्ल ने अमर शहीदों पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ. भूपेन्द्र सिंह, डॉ उर्मिला वर्मा, डॉ. शिप्रा द्विवेदी रहीं, जिन्होंने परिणाम को अंतिम रूप दिया। घोषित परिणाम के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पुनम मिश्रा, द्वितीय स्थान उर्मिला वर्मा ओर तृतीय स्थान रानी सोंधिया ने प्राप्त किया। इस दौरान डॉ. संध्या शुक्ला, डॉ. शशि त्रिपाठी, डॉ. भारती कोरी, डॉ. बृजेश साकेत. डॉ. अजिता सहित अन्य

ग्वालियर को १२५ रनों से पराजित कर रीवा सेमीफाइनल में बालिका अंडर-१५

एसोसिएशन की बालिका अंतर संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए के तहत एमपीसीए क्रिकेंट मैदान मे मेजबान रीवा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हये ग्वालियर पर 125 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुये ग्रुप बी में पहला

क्रिकेट प्रतियोगिता

स्थान प्राप्त किया वे सेमीफाइनल मे पहुंचने वाली पहली टीम होने का गौरव हासिल किया ।

इस मैच में टॉस रीवा की टीम ने जीता व पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रीवा की दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अंशिका पाण्डेय एवं साक्षी त्रिपाठी ने पहले विकेट के लिये 78 रन जोड़कर टीम को बेहतरीन शुरूआत दी जिसका फायदा उठाते हुये रीवा की टीम ने निर्धारित 35 ओवरों मे 4 विकेट खोकर 194 रनों का स्कोर बनाया । रीवा की ओपनिंग बल्लेबाज अंशिका पाण्डेय ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुये 58 नाट



वाली अंशिका पाण्डेय एवं ऊर्वी पाण्डेय ने भी दो-दो विकेट लिये । मैच की समाप्ति के बाद बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाली रीवा की कप्तान अंशिका पाण्डेय को मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार चयनकर्ता के रूप गेंदबाजी के सामने उनके बल्लेबाज मे उपस्थित शुभ्रा गोयल ,रेवती जोशी, शिखा दीक्षित एवं मैच के आर्ब्जवर असहाय दिखे व ग्वालियर की टीम 28 वें ओवर मे में मात्र 69 रन बनाकर ढेर श्याम दुबे के द्वारा प्रदान किया गया । हो गयी। जिसमें सर्वाधिक 33 रन इस मैच में इंदौर के रमेश कुशवाह एवं अतिरिक्त के रूप में बनें। ग्वालियर का राजेश कनौजिया अंपायर रहे जबकि एक भी बल्लेबाज दहाई के स्कोर नही स्कोरर का दायित्व शहडोल के संदीप सतनामी के द्वारा निभाया गया ।

भोपाल ने जबलपुर को 3 विकेट से किया हराया

स्टेडियम मे भोपाल एवं जबलपुर के बीच खेले गये ग्रुप ए के मैच मे भोपाल की टीम ने जबलपुर को 3 विकेट से पराजित कर ग्रुप ए में पहला स्थान बनाकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है । पहले बल्लेबाजी करते हुये जबलपुर ने 35 ओवरों मे 146 रनों का स्कोर बनाया जिसमे अन्वी महाजन ने 17 रन जान्हवी राय ने 16 रन तथा अपर्णा गुप्ता ने 16 रन बनाये । भोपाल की ओर से काजल चौरसिया ने 3 एवं सान्वी मंडलोई ने 2 विकेट लिये । जीत के लिये मिले 147 रजों के लिये भोपाल को कुछ संघर्ष करना पड़ा पर वो विजयी लक्ष्य को ७ विकेट खोकर पाने में सफल रहे तथा 3 विकेटों से जीत दर्ज की। भोपाल की ओर से प्रेरणा सिंह ने सर्वाधिक ३६ रन बनारों जबकि यवा अडवानी ने भी 17 रनों की उपयोगी पारी खेली । जबलपर की ओर से 3 विकेट लेकर जान्हवी राय सफलतम गेंदबाज रहीं । मैच की समाप्ति के बाद भोपाल की प्रेरणा सिंह को मैच की श्रेष्ठ खिलाडी के पुरस्कार से नवाजा गया।

सीएम राइज स्कूलों को अन्य स्कूलों के लिए आदर्श स्कूल बनाएं

जिला शिक्षा अधिकारी नियमित समीक्षा करें: कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम राइज स्कूलों के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सीएम राइज स्कूल शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। जिले के सभी 12 सीएम राइज स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता तथा समस्त व्यवस्थाओं में अन्य स्कूलों के लिए आदर्श स्कूल जैसा बनाएं। प्रत्येक कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक विार्थियों की उपस्थित सुनिश्चित करें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास करें। सभी प्राचार्य शिक्षकों एवं विशिययों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। स्कूल में सकारात्मक वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था करें। प्रत्येक कक्षा के लिए हर माह का लेसन प्लान तैयार करके उसके अनुरूप कक्षाएं संचालित करें। सीएम राइज स्कूल के कार्यों की हर माह समीक्षा की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनीटरिंग करें। कलेक्टर ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सभी स्कुलों के लिए भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराएं। इन सभी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। सीएम राइज स्कूलों के लिए चिन्हित स्थलों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अपर कलेक्टर तथा जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। स्वीकृत स्थलों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं। डभौरा में वर्तमान भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। प्राचार्य नए भवन के निर्माण तक



कक्षाएं संचालित कराने के लिए वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करें। भवन के किराए निर्धारण तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कराएं जिससे नए

भवन का निर्माण शुरू कराया जा सके। प्राचार्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो प्रशिक्षण दिया गया है उसे स्कुल में मुर्त रूप देने का प्रयास करें। सभी प्राचार्य अपनी स्कूल के शैक्षणिक विकास की कार्ययोजना



SGPGI लखनऊ के डायबिटीज

इंडिया संस्थापक डॉ अजय MBBS, MD (मेडीसिन), (एंडोक्रिनोलॉजी × मेटाबॉलिज्म) SGPGI MRCP SCE इंडोक्रिनोलॉजी, SCOPE सर्टिफिकेट ओबेसिटी एक्सपर्ट, वर्तमान कंसल्टेंट एवं विभागाध्यक्ष सहारा हॉस्पिटल लखनऊ दिनाँक 13 एवं 14 अप्रैल दिन शनिवार व रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 03 बजे तक रीवा न्य बस स्टैंड स्थिति कामता मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक × डायग्नोस्टिक (कामता मेडिकल), A-ब्लॉक, समदड़िया कॉम्प्लेक्स में, डायबिटीज (मधुमेह) थायराइड एवं हॉर्मोन्स से संबंधित बीमारियां जैसे लंबे समय से डायबिटीज व थायराइड से ग्रसित होना बहुत बार इलाज लेने के बाद भी आराम न लगना डायबिटीज के कारण अन्य परेशानी होना. बच्चों में डायबिटीज (मधुमेह), थायराइंड या हार्मोन्स की कमी या अधिकता, थायराइड की गांठ या अति दुबलापन, अत्यधिक मोटापा के कारण का पता लगाना व रोकथाम, कोलेस्टॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आदि का बढ़ना, किडनी में बार बार पथरी का बनना, (मेटाबोलिक स्प्रोन स्टडी), प्यास का ज्यादा लगना, बार बार पेशाब का लगना, मासिक धर्म का अनियमित होना या न होना, बांझपन

(नि:सन्तानता), पोलोस्टिक ओवरी, स्त्रियों असमय स्नाव, योवन संबंधी विकार समय से पहले या देर से आना, जनन अंगों के विकास सम्बन्धित रोग व हार्मोन्स की गड़बड़ी, पुरुषों में स्तन का बढ़ना, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की कमी, नपंसकता नि:सन्तानता, असमय बुढ़ापा आदि रोगों का परामर्श देकर इलाज किया जाएगा, डॉ शुक्ला विगत 3 वर्षों से प्रत्येक माह दूसरे शनिवार व रविवार को नियमित रीवा में अपनी सेवायें दे रहे हैं और हजारों रोगियों का सफल इलाज कर चुके है, और विंध्य क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर बड़े शहरों को नही जाना पड़ा है. अधिक

अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित किय

रीवा। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं अग्रवाल समाज के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश एवं देश में नाम रोशन करने वाल ऐश्वर्या अग्रवाल(चिकित्सक) , दिव्यम अग्रवाल,पलाश अग्रवाल (नीट में चयन) एवं प्रकाश अग्रवाल को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर आफ फिलास्फी की उपाधि प्राप्त होने पर अग्रवाल समाज भवन में अग्र गौरव सम्मान से जानकारी देते हुए बताया कि अग्रवाल समाज के छात्र-छात्राओं, युवक-यवतियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विगत 2 वर्षों से सम्मानित किया जा रहा है । इस अवसर पर अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, अग्रवाल समाज रीवा के पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद अग्रवाल मोहन लाल अग्रवाल, जवाहरलाल अग्रवाल, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ,श्रीमती नम्रता अग्रवाल, श्रीमती रेश अग्रवाल, अग्रवाल समाज रीवा के सचिव व अग्रवाल महासभा के जिलाध्यक्ष नृतन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कैलाश चन्द्र अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, अष्ठ ण अग्रवाल (कटरा), दिलीप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, शेखर अग्रवाल, रामायण अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, पुष्ठ षोत्तम अग्रवाल, संजय गुप्ता,सोमू अग्रवाल, रवि अग्रवाल, उत्तमचंद अग्रवाल, अतुल अग्रवाल,पवन अग्रवाल, आयुष

अग्रवाल,ष्ठ पेश अग्रवाल, शारदा प्रसाद अग्रवाल,शिवम अग्रवाल सहित



एवं प्रौद्योगिकी संस्थान thst एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, -गुरूग्राम एक्सप्रेसवे, पी.ओ.बॉक्स न. 04, फरीदाबाद-121001

(भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान) टीएचएसटीआई-जेएनयू पीएचडी कार्यक्रम 2023-24 (शीतकालीन सत्र)

प्रवेश सूचना संख्या टीएचएस/एएन/01/2023 टांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई) मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए उत्पादों में अवधारणाओं के विकास में तेजी लाने के लिए विषयों और व्यवसायों में नवीन अनुवाद संबंधी अनुसंधान करने के मिशन के साथ एक गतिशील

और संवादात्मक संगठन है। टीएचएसटीआई-जेएनयू पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई 2023 है। विस्तृत विज्ञापन के लिए, हमारी वेबसाइट (www.thsti.res.in) पर जाएं।



MP BIRLA GROUP

अग्रवाल समाज की मातृशाक्ति व सदस्यगण उपस्थित रहे।

बिरला केबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग विहार, डाकघर-चोरहटा, रीवा - 486006 (म.प्र.) CIN: L31300MP1992PLC007190 Telephone No: 07662-400580, Fax No: 07662-400680

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई तिमाही एवं वितीय वर्ष के अंकेक्षित, एकांगी एवं समेकित वितीय परिणामों का सारांश

	(लाख	₹	में	
_		_		

				एकांगी				समेकित						
		तिमाही अवधि			धे वार्षिकः		वार्षिक अवधि		तिमाही अवधि		वार्षिक अवधि			
क्रमांक	विवरण	विवरण 31.03.2023	31.12.2022 31.03.202		1.03.2023 31.12.2022 3		31.03.2023 31.03.2022		31.03.2023 31.12.2022 (टिप्पणी नं.1 देश		31.03.2023			
		(अंकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अंकेक्षित					
1	परिचालनों से कुल आय	24530.33	19970.03	16218.87	79219.75	53544.73	24530.33	19970.03	79219.75					
2	समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1734.60	1117.24	1421.88	4451.43	2923.52	1712.36	1106.87	4396.76					
3	कर के पूर्व समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	1734.60	1117.24	1421.88	4451.43	2923.52	1712.36	1106.87	4396.76					
4	कर के पश्चात समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	1295.56	829.94	1058.27	3348.66	2173.71	1273.32	819.57	3293.99					
5	समयावधि के लिए विस्तृत आय [समयावधि के लिए लांभ (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) को समावेशित करते हुए]	1607.54	1417.81	742.60	4794.68	2122.75	1581.99	1408.81	4737.99					
6	समता अंश पूँजी (प्रति अंश आय मूल्य रु.10/- प्रति)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00					
7	आरक्षतियाँ (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़ कर)				19998.29	15653.61			19941.60					
8	आधारभूत एवं तरलीकृत प्रति अंश आय (रु. 10/- प्रति अंश) (वार्षिककरण रहित)	4.32	2.77	3.53	11.16	7.25	4.24	2.73	10.98					

(1) कम्पनी के अंकेक्षित समेकित वितीय परिणाम कम्पनी की पूर्णस्वामित्व वाली सब्सिडरी कम्पनी बिरला केबल इंफ्रासोल्यूशन DMCC के अंकेक्षित वितीय परिणाम सम्मिलित करने के बाद तैयार किये गये हैं, जिसमें कि कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष में 139,84 लाख समता अशों मे निवेश किया है। (2) संचालक मण्डल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वितीय वर्ष के लिए 10/- रुपये अंकित मूल्य के पूर्णप्रदत्त समता अंश पर 2.50 रुपये (25%) प्रति अंश लाआंश की अनुशंशा की है। लाभांश का भुगतान कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारको के अनुमोदन पर निर्भर है।

(3) उपरोक्त विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई तिमाही एवं वितीय वर्ष के अंकेक्षित, एकांगी एवं समेकित वितीय परिणामों का सारांश है जो कि सेवी के (दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) अधिनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में फाईल किया गया है। उपरोक्त वार्षिक वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेब साईट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com एवं कम्पनी की वेब साईट www.birlacable.com पर भी उपलब्ध है।

> कते बिरला केबल लिमिटेड (हर्ष वी. लोढ़ा) चेयरमैन डीन: 00394094

दिनांक : 02 मई, 2023

र्सविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन जारी

जिला चिकित्सालय रीवा में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का तीसरे दिन का आंदोलन चालू रहा। संविदा



स्वास्थ्य कर्मचरियों ने दावा किया कि मध्यप्रदेश चिकित्सक संघ के आह्वन पर जिला इकाई रीवा चिकित्सक संघ द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बैनर पर अपनी भी मांगे एवं समर्थन करने के साथ अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठ गए जानकारी मिलने पर मंगलवार की शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाम 10.30 बजे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल में जाने के कारण आनन-फानन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टरों से स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। हालांकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचरियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं में पडता साफ दिख रहा है। कर्मचारियों के हडताल में जाने से टीकाकरण कार्य जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाई जा रही योजना का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा। चिकित्सक संघ द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया एवं जिला इकाई ने साथ में बैठकर आंदोलन करने करने का निश्चय किया है। आज चिकित्सक संघ के कई चिकित्सा अधिकारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठकर अपनी मांग एवं संविदा कर्मचारियों को मांगों के लिए नारे लगाए एवं जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलेगा यह निश्चय किया विपक्षी पार्टी के कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन देने के लिए पंडाल पर आने लगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भारी संख्या में कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों का उग्र आंदोलन किया गया। बताया गया कि ८ मई को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का मुख्यमंत्री निवास को घेरने का निश्चय किया है रीवा से तकरीब 900 संविदा कर्मचारी

भोपाल के लिए जाने का निश्चय किया।

ब्रेन,स्पाइन एवं न्यूरो रोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉ

राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पख्यात बेन, स्पाडन एवं न्यूरो रोग सुपर स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपिक सर्जन डॉ सचिन सिंह MBBS, MS MCh (न्यूरो) PGI नई दिल्ली निर्देशके-लाइफ लाइन दिन रविवार को (प्रत्येक माह के पहले एवं बजे तक , कामता मल्टीस्पेशलिटी क्लीनिक/डाइग्नोस्टिक × विजन हार्ट सेंटर, में, ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से सम्बंधित सभी प्रकार की बीमारियां जैसे रीढ़ की हड्डी की का दर्द (माइग्रेन की समस्या), मिर्गी रोग, बेहोसी व चक्कर आना, अंगों में कंपन-<u>जनजनी-शन्यता, मांसपेशियों/नसों में</u> कमजोरी, मेस्तिष्क ज्वर, ब्रेन हैमरेज, रीढ़ की हड्डी की टी.बी., एडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आदि न्यूरो से संबंधित सभी प्रकार के सचिन सिंह के द्वारा लगभग 10000 (दस सचिन को न्यूरो से सम्बंधित सभी प्रकार की सर्जरी में महारथ हासिल है, डॉ सचिन के द्वारा प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे रविवार को विगत रु: वर्षों से कमाता क्लीनिक में मरींजों इकोकार्डियोग्राफी, TMT, ECG, होल्टर, ABPM, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, आदि

बनाकर उसके अनुरूप स्कुल का संचालन करें।

सचिन सिंह 07 मई रविवार को रीवा में हॉस्पिटल प्रयागराज, के द्वारा, दिनांक 07 मई तीसरे रविवार को) सुबह् 10 बूजे से दोपहर 02 ब्लॉक समदड़िया कॉम्प्लेक्स न्यू ब्रुस स्टैंडू रीवा चोट/दर्द, गर्दन व कमर का दर्द, लकवा, सिर सर्वाइकल स्पोडलाइट्रिस, स्नायु रोग, साइटिका रोगों का परामर्शे देकर डलाज किया जाएगा, डॉ हजार) से ज्यादा ब्रेन, सर्वाइकल एवं स्पाइन से संबंधित सर्जरी सफलता पर्वक कर चके है. डॉ को OPD परामर्श दिया जा रहा है। क्लीनिक में जांचों की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु कामता मेडिकल रीवा में संपर्क करें।

इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मीन में अतिरोमिता, गैलोक्टरिया छाती से

जानकारी के लिए कामता मेडिकल रीवा में

-Advt.